दि न्यु इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.

(Govt. of India Undertaking)

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय: न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001. Regd. & Head Office: New India Assurance Bldg., 87, M.G. Road, Fort, Mumbai - 400 001. CIN No. L66000MH1919GOI000526

022 2270 8100 022 2270 8400

Website: www.newindia.co.in

Ref. No.: NIACL/CMD BoardSectt/2022-23

16th December, 2022

To,

The Manager Listing Department **BSE** Limited PhirozeJeejeebhoy Tower Dalal Street Mumbai 400 001

The Manager Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th floor, Plot C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE - 540769/NSE - NIACL)

Dear Sir/Madam,

Sub: Extract of Notice of postal ballot and intimation of completion of dispatch published in Newspapers.

This has reference to our letter dated 15.12.2022 whereby we had submitted the Notice of Postal Ballot and completion of dispatch intimation.

The Newspaper clipping of the "Extract of Notice of postal ballot and intimation of completion of dispatch as published in Newspapers" is enclosed. The said extracts are also available on Company's website at www.newindia.co.in

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You Yours faithfully

For The New India Assurance Company Limited

Javashree Nair

Company Secretary & Chief Compliance Officer

at discount from Nafed

prices likely soon



mber 15

RETAIL PRICES OF packaged milk supplied by dairy coopera-tives and Mother Dairy could see another round of hike soon,

National Dairy Development Board (NDDB). Last month. Mother Dairy, a wholl would will be a substitute of the NDDB, and the NDDB will be a substitute of the NDDB, and announced a hike in prices of full of the NDDB, and the number of the NDDB, and the number of the NDDB will be number of the NDB will be n

of flush season when milk pro-duction goes up, prices are unlikely to firm up further after the next round of hike. The feed costs constitute about 75-80% of the cost of produc-tion of milk, Shah said.

milk suppliedlydairy coeperatives and Mother Dairy could see another round of kincsoen, wing to there is not so feed and other inputs. "As we have to make procurement prices of milk from farmers, there could be one more round of increase in prices by cooperatives," and Meenesh C Shah, chairman, National Dairy Development Board (NDDB), Last month. Mother Dairy, and whole sale prices of mother of the MDDB, and the month of the MDDB, and the morth of the MDDB, and the was some drop in milk production in few pockets because of the MDDB, and the was some drop in milk production in few pockets because of the MDDB, and there was some drop in milk production in few pockets because of the morth of the MDDB, and there was some drop in morth of the MDDB, and there was some drop in morth of the MDDB, and the morth of the MDDB, and February, when they rose by 3.81% on year.

States' borrowing limit to be set at 3.5% for FY24

THE CENTRE WILL set the borrowing limit for states of PV24 at 3.9% of gross at sea domestic produce (SSDP), and sea domestic produce (SSDP). While some states have demanded a higher ceiling for next year, officials said the Centre would rather stick to the fiscal consolidation path, as Covid-induced higher borrowings under increased limits in FV21 and FV22, raised their debt levels of course, all states did not exhaust the additional borrowing sunder increased limits and still states did not exhaust the additional borrowing space even during the Covid period. In the pre-Budget meeting, with Union financeminister Nirmala Sitharaman on November 25, Blant financeminister Nirmala Sitharaman on November

MITHUN DASGUPTA Kolkata, December 15 FOUR PUBLIC SECTOR gen

Staff strength of 4 PSU insurers

drops in previous four fiscals

road map for states



The Centre has set the borrowing limit at 3.5% of GSDP for FY23 with another 50 bys window it states carry our reforms in the power sector, taking like total space to 4%. Thin libradit basals of the next fiscal. Borstates, the PC had recommended a fiscal deficit limit of 4% for FY2.3. 5% in FY23 and 3% during PY24-2.6 If a state is unable to fully utilise the sanctioned borrowing limit during

a percentage of revenue.

The objective was to aid states to bridge the resource gap due to the adverse impact of Covid-19 on their revenues as wellas to improve the quality of

well as to improve the quality of opporture. Except in FY10, FY16 and FY17, states had maintained their combined gross fiscal deficit below the Fisca Responsibility and Budget Management (FRBM) ceiling of 3% of GDP BHFY20. The overshooting of the deficit in FY10 was due to the response to the global financial crisis, whereas the implementation of Ujwal Discom Assurance Yojana (UDAX) was responsible for higher deficit in right rediction in the proposable for higher deficit in right rediction.

Asstrance Yopina (UDA) was responsible for higher deficit in FY16 and FY17. In FY21, the states' combined fiscal deficit cameinat 4.2% and issued in the states' combined fiscal deficit cameinat 4.2% and issued instanted to be around 3.9% in FY22.

It has been observed that manystates prefer to horrow less (Odisha did not borrow in FY22) and try to revert to their in remail borrowing pattern below 3% of their respective GSDP to keep interest costs in check.

FOUR STATES — GUIARAT, Madhya Pradesh, Kerala and Andhra Pradesh Kerala and Andhra Pradesh — have expressed their intention to purchase more than O.1 million tonne (MT) of chana (gram) from the buffer stocks being offered by the Centre at the discounted rate of 85 per kg for distribution under various manufactures of the per section of the control o

kg for distribution undervar-ious social welfare schemes. Sources told FE that Mad-hya Pradesh (0.07 MT) and Gujarat (0.03 MT) will pur-

chase chana from surplus buffer stocks with the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (Nafed) white carlot Tamil Nadu and Himachal Pradesh had expressed their desire to buy pulses at a discounted rate. Kerala and Andhra Pradesh will also purchase the pulse variety from

Andhra Pradesh will also pur-chase the pulse Variety from the Centre in smaller volumes. In August, the Cabinet had approved the disposal of 1.5 MT of chana from the surplus bufferstockheldwith the farm-ers' cooperative Nafed to states.

BIRLA CORPORATION LIMITED

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDE

OTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTIN

Hike in retail milk • IN SYNC WITH 15TH FINANCE COMMISSION PROPOSAL Four states to buy chana

it could avail the unutilised bor-rowing amount in subsequent, years (within FY2.2 FY2.6). Extra annual borrowing worth 0.5% of GSDP was rec-ommended forstates during the first four years (FY2.2 FY2.3) upon undertaking power sector reforms. The reforms include a reduction in operational losses, evenue aga, payment of cash revenue gap, payment of cash subsidy by adopting direct ben-efit transfer and tariff subsidy as

Bandhan | Sept. 0H.: DM 27, Sector V. Solt Line; Milleror-70000F | cmb L67 1000000014Pt; C2046222 | Please: 0H 03-6000 0000 | Fax: 9H 03-6000 | NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S)

Falla Na.	Name of the Shareholder(s)	No. of Shares	Distinctive Nos.		Certificate
			To	From	Nos.
BAN1168249	Pitaram O Prajapati	568	1608280926	1608281493	1094761
BAN1167990	Bharat Bhushan Sachdova	1136	1607774435	1607775570	1094502

JS TOUT TISCAIS
strength was 2996 to 9,569 at the end of FV12, from 13,440 at the end of FV12, from 13,440 at the end of FV13. United India Insurance Isowitnessed a 2896 fall to 11,523 during the last four financial years. New India Assurance, which is the only profit making state-run general insurer and the market leader in the non-life insurance space, also witnessed its number of employees shrink by 2296 to 13,292 as on March 31, 2022, from 17,880 as on March 31, 2021, 2018, according to the data.

FOUR PUBLIC SECTOR general insurance companies — New India Assurance, Oriental Insurance Company, United India Insurance Company (District Company) — India Martinessed a 27% Grap in their employee strength in the past four insurance Juyerance Company's employee strength has fallen sharphy 93 from 13,667 as on March 31, 2018, according to data revealed by the government in the Balya Sabha. For National Insurance Company, the fall in employee from 17,880 as on March 31, 2018, according to the data. Significantly, loss-making Oriental Insurance Company and National Insurance Com-pany made no fresh appoint-ments in the last four years. Sufficient grain stocks for PDS & PMGKAY: Govt



SANDIP DAS New Delhi, December 15

THERE ARE SUFFICIENT central pool to meet the requirement for National Food Security Act, Prad-han Mantri Garib Kalyan han Mantri Garib Kalyan Anna Yojana and other welfare programmes, the food ministry said on Thursday, "About 15.9 million tonne (MT) of wheat will be available as on January 1, 2023, which is well above the buffer of 13.8 MT," according to the ministry. Meanwhile, the Food Corporation of India's

Meanwhile, the Food Corporation of India's (FCI) wheat stock fell to 19 MT on December 1, which was at six-year low. This is against the buffer of 13.8 MT for the beginning of next year. However, the current stock of 11.5 MT of rice along with 24.8 MT to be received from millers is far more than the requirement of 7.6 MTat the beginning of the

next year.

Overall food grain stocks with the FCI at the beginning of the month were 30.5 MT against buffernorm of 21.4 MT for

the price scenario of wheat and "is constantly monitor-ing it regularly on a weekly basis along with other commodities and taking corrective measures such as exports regulations for curbing price rise."

oue to iesser production coupled with selling by farmers at prices higher than Allinimum Support Price in the open market than Minimum Support Price in the open market consequent to geo-political situation. "Yet enough stock of wheatwill still be available in the central pool to cater to the needs of the country litherime the next wheat crop armives," according to a statement by the ministry. Wheat inflation rose by 15-679% in November 2012. Due to lower production and higher global demand, PCI's procurement 1202. 22 as asson fell by more than 76.6% to only 13.8 MT against 43.3 MT purchased from the farms in the previous year. What a cateful in the Valuation and the value of the Valuation of Valuation of

ers in the previous year.
Wheat output in the
2021-22 crop year (lulyJune), as per the agriculture
ministry, has declined by
around 3% on year to
106.8 MT because of heat
waves during the flowering
stage of the crop in March.
In May, 2022, India
banned wheat exports
for ensuring domestic
supplies.
The FCI had earlier
stopped sale of wheat in
the open market from its
stocks for the first time in
more than a decade in

stocks for the first time in more than a decade in view of a sharp drop in procurement in 2022-23 rabi marketing season and additional allocations of the grain under the free ration scheme.



The New India Assurance Company Limited, Mumbai

Regd. & Head Office: 87, M.G. Road. Fort, Mumbai- 400 001 CIN No : L66000MH1919GOI000526 , IRDA Reg No : 190

Tel: +91 22 22708263 ; Fax : +91 22 22652811
Email : investors@newindia.co.in ; Website : www.newindia.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Icisting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Circuliars and Notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has:

Sent an email through NSDL, along with the login ID and password to the members for e-voting who have registered their email id's or Depository Participant(s) or with the Company;

Completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form to all the members whose name appears on the Register of Members. List of Beneficial Owners as on 9° December, 2022 for voting through Physical mode, along with a postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the other members (whose email IDS may not be registered) for seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot

for seeking approval of Members of the Company for appointment of 1. Mr. A K Longani (DIN: 009778220), as General Manager & Director with effect from 31st October 2022 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 31.0.1.2023), by Government of India vide Notification No. A-11011/03/2022—Inst. Ideaed 31st October, 2022 and pursuant to Article 121 of the Articles of Association of the Company, be and is hereby noted. 2. Mr. Y K Shimray (DIN: 09272315), as General Manager & Director with effect from 10th November 2022 up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 31.03.2023), by Government of India vide Notification No. A-11011/03/2022—Inst. Ideaed 31st October, 2022 and pursuant to Article 121 of the Articles of Association of the Company, be and is hereby noted.

Members are requested to note that the voring, through electronic mode shall commence from Monday, 19th December, 2022 (9:00 a.m. IST) and end on Tuesday, 17th January, 2023 (5:00 p.m. IST). The members can opt for only one mode of voring i.e. either by physical ballot or by electronic mode. In case, any member casts vote through physical ballot as well as electronic mode, then voting done through electronic mode shall prevail and voting done by physical ballot will be treated see resulted.

The Board of Directors have appointed Mr. S. N. Viswanathan and failing him, Ms. Malati Kumar, partner of S. N. Ananthasubramanian & Co., as the Scrutinizer for conducting the postal ballot? e-voting process in a fair and transparent manner. Hembers are requised to note that the duly completed and signed postal ballot forms should reach the Sentimizer not later than Tuesday, 17 January, 2023 (17:00 hours IST). Postal ballots received after the close of working hours on , Tuesday, 179 ananzy, 2023 (17:00 hours IST) will not be considered as valid.

The voting rights of Members shall be reckoned as on 9° December, 2022 which is the cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's weeking at www.nowindia.co.in.

In case of any query relating to voting by electronic means, please refer to instructions for e-voting annexed to the Notice for Postal ballot available on our website www.newindia.co.in or www.evoting.nsdl.com.

If your email ID is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting will be sent on your registered email address. Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with M's Link Intime (India) Pvt Ltd in case the shares are held by them in physical form.

For any queries/grievances relating to e-votting, members are requested to contact Mr.Mahesh Masurkar, Investor Relations that thin find a Private Limited., C-101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (W), Mumbai = 400 083. Tel No =91 22 49186270, email di: rnt.letyleds/k@linkintime.co.in. Members can also contact MS Pallavi Mhare. Senior Manager, NSDL, 4th Floor. "A" Wing, 1 rade World, Kamala Milk Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai = 400 013, Toll free no: 1800 1020 990 1800 224 430, email di: evotting@f.malc.co.in.

For THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED

JAYASHREE NAIR
COMPANY SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER

Place: Mumbai Date: 15th December, 2022







अस्थमाच्या रुग्णांना हृदयविकाराचा धोका



सर्वात अधिक आरोग्याच्या समस्यांचा सामना हृदयविकार लागतो. नकत्याच केलेल्या एका संशोधानात या दोन्ही आजारोमधील संबंध स्पष्ट करण्यात आला. 'एनाल्स ऑफ नौदी मेडिकल

जर्नल'मध्ये अस्थमा आणि रटयविकागसंबंधांबाबन एक संशोधन प्रकाशित करण्यात आले संशोधन प्रकाशित करण्यात आहे. आहे. यामधील निष्कर्षांनुसार महिलांभध्वे अस्थमामुळे इंदर्यविकाराचा धीका १.३१, तर पुरुषांमध्ये १.५५ दक्के बाहती. यानुसार अस्थमा हा मृत्यू दर वाढविण्यासही कारण उरत आहे. या संशोधनानसार प्रखाद्या

व्यक्तीला ॲक्टिव्ह अस्थ्रमा असेल तर हदयिकाराचा अटका, मेंद्रुपात अशा हदयिकारासंबंधी आजारांची शक्यता बाढते. 'एनाल्स ऑफ सौदो मेड्किल

जर्नल' नुसार अस्थमा एक वैश्विक आरोग्य समस्या आली आहे, हा आराय समस्या आली आह. हा आजार आल्यानंतर श्वस्त मार्ग अति संवेदनशील होते, त्यामुळे श्वसन मार्गात अङ्गळा निर्माण होतो. त्यातृन चारंजर भीती वाटणे, श्वास घेण्यास ज्ञास होणे अशा समस्या निर्माण होतात. त्याचाच पुढे हृदय्यवकाराशी संबंध येतो.



थंडीचे सोमवारपासन पनरागमन

चे मुंबई: शहरात काही दिवसीपासन सकाळी थंडी आणि दुपारी कडक कन असे बाताबरण होते, मात्र डिसेंबरच्या दुसऱ्या पंधरबड्यात मुंबईकरांना गुलाबी थंडीचा अनुभव घेता बेणार आहे. सोमबारपासून किमान तापमानात घटोची शक्यत वाडण्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी

बाडण्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यवन केला. 'मंदीस' चक्रीबादव्यमुळे बाताबरणात मोठ्या प्रमाणात बदल झाला होता. बंगालच्या उपसागरात कमो दाबाचा पड़ा निर्माण झाल्याने आणि 'मंदीस' चकीवादळामळे जोणि 'मदोस' चक्रावाद्यामुळ तिमळनाडु, आंध्र प्रदेशच्या किनारपड्डोवर मुसळ्यार पाऊस झाला, तसेस, चक्रावादळाच्या परिणामामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत होता तर, काही भागात दमाळ वातावरण होते. काहा भागात दगाळ वातावरण हात. तसेच, सध्या राज्यात किमान तापमान सरासरीपेक्षा ५ अंग बेल्पिअसने बाढले आहे. मात्र, यात घतरण होऊन सोमवारपासून थंडीत बाढ होईल, असे हवामान तज्ज्ञ माणिकराव खुळे बांनी सांगितले.

गोवरच्या विशेष लसीकरणाला अल्प प्रतिसाद

तुझ्यामुळे मी मॅच जिंकलो...

वरचेवर आजारी पडत नाही

तन्बीशताः!

विश्वता टॅबलेट्स

मुंबईत पहिल्या दिवशी ६० सत्रांमध्ये ४७९ बालकांचे लसीकरण

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : गोवरचा प्रतिवंध करण्यासाठी मुंबई: गाँवरचा प्रतिकंध करण्यासाठी राज्य कृती दलाने मुख्यलेल्या विशेष लस्सोकरण मेहिमेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. मात्र या मोहिमेला मुंबईत पहिल्याच दिवशी अल्प प्रतिसाद मिळाला असून ४७९ वालकांचे लसीकरणकरण्यात आले. मुंबईत १९ टिकाणी गोवरचा उद्रेक झाला अपने

मुन्नहर्त १९ टिकाणा गावस्या उदक आत्ना आहे. त्यानुसार महापालिकेमार्फत गुरुवारी राज्य कृती दलाच्या सूचनेन्सार विशेष लसीकरण सत्रे घेण्यात आली. पुंबदेनध्ये पहिल्याच दिवशी लसीकरणाची ६० सत्रे घेण्यात आली. वामध्ये ६ ते १ महिन

අට නැව පිහෝ ඉද්නොවේ ඉදිනස්දි කිදියේ කියන සාළුන් න්නෑත් අං පනෝ ජාගයදෙකත් යුතුග පනගෑබේ ජනත් පුරද සහත් සාල් යාඩ, අප්ත දූ ද ස්ත්විත පනගෑබ් නි්ය සපහත්ත යාල්, වොකුබ් වේ ජනත් 4 සන්ද පිහි දින්වේ සාල්).

वयोगटातील २८१ बालकांचे लसीकरण करण्यात आले. त्यांना 'एमआर' लसीची मात्रा रेण्यात आली, तर ९ महिने ते ५ वर्षे वयोगटातील १९८ बालकांना 'एमएभआर' लसीची मात्रा रेण्यात

'एमाएमआर लसाचा माता उरणा आली. विशेष लसीकरण मोहिमेला मुंबईमध्ये पहिल्या दिवशी अल्प प्रतिसाद मिळाला असला तरी गोवर संसर्गाचे गंभीर दुप्परिणाम लक्षात येत

असल्याने हळूहळू प्रतिसाद बाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. १५ ते ३१ डिसेंबर आणि १५ ते २५ जानेवारी अशा दोन टप्प्यांमध्ये

त २५ जानवारा अशा दोन टप्प्यामध्य हो मोहोम राववण्यात वेणार आहे. गोवर रुवेला लसीची मात्रा चुकलेल्या ग्रत्येक बालकाला या लसीच्या दोन मात्रा २८ दिवसांच्या अंतराने देण्यात वेणार आहे. राज्यात गुरुवारी घेण्यात आलेल्या २०४ अतिरिक्त सत्रांमध्ये गोवर रुवेला लशीचो पहिली मात्रा २५ हजार ५३४, तर दुसरी मात्रा १२ हजार १६६ बालकांना देण्यात आल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात

मुजइत आतापचत आठ जणाऱ्या गोबरमुळे मृत्यु आला अस्त, तंशिवत मृत्युं जी संख्या पाच आहे. तसेच मृत्युं जी संख्या पाच आहे. तसेच संसर्गामुळ झाला आहे. मुंबईमध्ये हरणालयात दाखल असलेल्या हरणांपैकी १०४ हरणांची प्रकृती स्थिर रुणांपैकी २०४ रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून पाच जाणांना प्राणवात् तंत्रणेवर टेवण्यात आलेले आहे. चार का अतिदक्षता विभागात असून तीन जाणांना जीवरक्षक प्रणालीवर टेवण्यात आले आहे.

येथे महाराष्ट्र पॅव्हिलियन - पी६८ मध्ये आपल्या भेटीसाठी आम्ही उत्सुक आहोत श्री नरेंद्र मोदी भारतातील वस्त्रीद्योगात महाराष्ट् अग्रेसर वस्त्रोद्योग आणि वस्त्र उत्पादनातील जागतिक शक्ती केंद्र म्हणून भारताच्या अतुलनीय उदयात महाराष्ट्राची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. भारतातील एकूण उत्पादनावैकी कापत आणि क्लोशोम क्षेत्रल महाराष्ट्राचा १२% वाटा इतर फायबर्स पैकी कापूस, रेशीय आणि बांबू उत्पादनात मनान्य राज्याने वस्त्रोद्योग गंत्रसामग्री जन्मादन क्षेत्राला महत्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून निश्चित केले आहे.

दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई

नॉदणीकृत व मुख्य कार्यालय : ८७, एम. जो. ग्रेड, मोर्ट, मुंबर्ट-४००००२. N No. : L66000MH1919GO1000526, आयआरडीए राजि.क. : १९० ति No.: 1.66000MH1919GO1000526, आवशास्त्राप् चणाकः : १९० टेलि: - ११ २२ २१७०८२६३; फॅक्स : -११ २२ २२६५२८११ १-पेल: investors@newindia.co.in; चेक्साइट : www.newindia.co.in

सदायांना बाहरे कळारिण्यात तेते की, कंपन्या (व्यवस्थायन व प्रशासन) नियम, २०१४ वासह वायरोल्या कंपना अधितिवय, २०१३व्या कलम १०८ य करूम ११०, मिक्युनिटिन औषड पुनर्कोंच बांहे औरू डीहिबा (शिलिटीग आफ्रियोचन ऑफ्ड डिक्क्शोलन विवायरोन्द्रस) गुल्होत्रान्त, २०१५ प्या रंजुलेवान ४४ आणि ज्याखालील निर्मासन केरोले कायरे, नियम, विनिमस, परिपक्ते व औरस्पूचना (वेटावेबळी सुधारित केर्यानुसर आणि ज्याकरिता वेळा अमालत आणलेले कोणतेती सोविविक फेसब्स्टल किंवा पुनर्कास्य समागिष्ट)च्या अन्य लागू तरावृत्येच्या अमुसार केमसीने

अन्यकात अन्यक्तात्र कानवात्र भावत्रक सत्यक्का काव पुनकाव्य समावट) ज्या अन्य कानू तत्युवाच्या अनुसार कानावा :
ई-वीटिनकरित सरस्यांत्र, चार्नी वार्च ई-से असदी हिताबिदयो पार्टीसमन्द्रम किया कायनेकहे नौरणीवृत्त केलेले आहेत, लॉन-इन आयडी
व पासवर्डसाः 'प्रग्यस्त्रीयल' द्वार ई-सेल पार्टीयले आहेत;
सर्व सरस्यांच्या, पोस्टल बेंटलद्वारा केपनित्या पार्यस्वकीय सामनता मिळाविस्थाकारिता व अन्य पार्ट्यस्ता (व्याचे इ-सेल आवडी न वोटणीवृत्त केलेले नस्तांकि प्रोस्टल बेंटलट्वारा केपनित्य पार्यस्त्र कार्यस्त्रीय स्वत्याच्या पार्टीत सर्वादाकारिता व्याची तर्व व दिसंखर केलेले नस्तांकि प्रोस्टल-विरोद स्वत्यांच्या नोटवाहीत। लामधिकारी पालकाच्या वादीत आलेली आहेत, पोस्टल बेंलट पर्वमंसमवेत पोस्टल बेंलट सुचना

पुर्वोक निवृत्तनीतरमांत कंपनीच्या सदायांची मानवत मिळांवय्याकरिता १ आं. ए. के. लोगानी (अंआवादा : ००९७७८२२०). ३१ ऑक्टोबर २०२२ प्रासुन महाव्यवस्थायक व संचालक माजून आणि दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ नीटिक्किशन ने. ए.११०२१/०३/२०२२-आवाद्यस्य । यार्कत पारत सरकाराता, त्यांच्या सर्वाक्षित्र वाराच्या तारांच्यार्थन (माज्येच ३१.०१.१०२३) आणि कंपनीच्या आर्टिकल अर्थक अर्थारिस्पानतच्या आर्टिकल १२१च्या अस्तुनात, आसावयाची आणि बहाता नोंद पेपवात आर्टिकल १२१च्या अस्तुनात, आसावयाची आणि व्यात नीटिकल अर्थक स्थापिस्पानतच्या आर्टिकल १२१च्या अस्तुनात, आसावयाची आणि वित्रोक ११ अर्थिकीयान, २०२२ नीटिक्किस ने. ए.११०११/०३/२०१२-आयाव्यस्य । मार्कत पारा सम्बाद्यान त्यांच्या संयावित सम्याव वाराव्यस्य (स्थापनेच ३१.०३.२०२३) आणि कंपनीच्या आर्टिकल अर्थक अर्थकीसस्थानच्या आर्टिकल १२१च्या अनुसार, असावयाची

आण बाहता नार पण्या आलला. सर्दर्भान नीर पेणसा विनेती करणवात वेते की, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमार्थत मतदान सोमवार, १९ डिसॅबर २०२२ (स. ०१.०० वा. भारते) सुरू होईल आणि मॅफळाया, १७ जानेवारी, २०२३ (सार्च, ०५.०० वा. भारते) स्रोक, सदस्य केरळ मतदानच्या एकाच प्रकारा प्रकारा केरळ प्रतार बेलट किया इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली. वर कोणनाडी सदस्याने प्रतास बेलटहारा तेमच इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत लाचे मतदान केरणास, तर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीहारा केलेले सतदान प्राच्य बसले नाईल आणि प्रतास बेलटहारा केलेले सतदान अधिय उत्तिस्थात वेलेल.

प्रणालाक्षात कलल नहारन आया परल जाक आण प्रत्याव कल्टाना कलल नतान अन्य उताबन्धात वेहल. पंचालक मंडकाने चेरटल केंद्र प्रक्रियेचे अध्योजन स्वच्छ व परदार्थक पद्धानि होण्याकरिता परिनिश्चक म्हणून कार्यत होण्याकरिता श्री, एस. एन. विस्ववायन आणि जांच्या अनुपरिपादीत श्रीमती मारली कुमार, एस. एन. अन्यस्तुकृत पंचाल केंद्र के चे चारीदार, वांची नेमण्क केली आहे. तारच्याना मेंद्र भेण्यास विनोती करणवात चेते की, व्योधितारित्य पूर्ण असलेले आणि स्वाक्षतिक तारस्टल केल्ट फॉम्स उतिशात उतिशत प्रकार मारल्यार, १७ जानेवारी, २०२३ गेजी (समें ०५,०० वा. क्यूप्रें) परिनिश्चकाकडे पोहोनारेच पाहिजेत. पीस्टल वॉल्ट्स मंगळ्यार, १७ जानेवारी, २०२३ गेजी (समें ०५,०० वा. क्यूप्रें) परिनिश्चकाकडे पोहोनारेच पहिजेत. पीस्टल वॉल्ट्स मंगळ्यार, १७ जानेवारी, १०२३ केलाकान केंद्र आल्वानंदर स्वीकारणे मेल्यार के मारली विचारा देसले जाणार नाहीत. यारणांच्या मारावाच्या तत्कारी ०९ डिसीबर, २०२२ रोजीप्रमाणे, जो कट-ऑफ तारीख आहे. परिगणमा केली वाईल, व्यक्ती, जी कट-ऑफ तारखेनुसार सदस्य जाती तिन ही पास्टल खेलर सुरना केलळ माहलीप्रोक्षण समजार्था, पोस्टल खेलर सुवनेच्या प्रत <u>कारण करण कार्य</u> या कंपनीच्या

इलेक्ट्रॉनिक प्रणानविद्या मनदानसंबंधित कोणतीती रोका असल्यास, कृपना <u>१९५५ कथणीतीक १००१ व</u> आपच्या वेग्रसाइटवर किंवा <u>१९५५ स्थानात त्राची १०००</u> व वेष्माद्राट्य पोस्टल खेल्टकर्तिता उपलब्ध असलेल्या सूचनेस प्रोत्तलेल्या केनीटियकरिता पूचन पात्रलात. तर तुमंचे हैं मेल आवडी आर्थीय कंपनी, हिपाईवरतीकडे तील्लोकुन असल्यास, है-वीटियकरिता लॉन-इन तपसील तुम्ला तील्योकुन परचावर पार्टावण्यात वेपार आहे. ज्या सदस्तानी लांचे हैं मेल पने नीटलीकुन केलेले सकित प्लांत वित्तती काल्यात तेने की, लांची बार है नेस्व पत्ते चालाके हलेल्युनिक

स्वरूपात भाग असल्यास त्यांच्या डीमी जकडे आणि जर त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग असल्यास 'मेसमें लिक इन्टाइम (इंडिया) प्रा. लि, कडे

ई-वीटिंगसंबंधिन कोणलाही रोका/ तकरी असलबास, सदस्यांन चिनंती करण्यात येते की, त्यांनी संपर्क साधायाः श्री. महेरा समुरका, इन्केस्टर रिलेशन्स, 'मेससं लिंक इन्टाइम (इंडिया) ग्रा. लि.', सी-२०१, २४० पाके एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोत्रती (प.), मुंबई-४०० ०८३, टेलि. फा. ४९१ २२ ४९१८६२७०, ई-मेल आगडी : grt.helpdesk@linkintime.eo.in

सदस्य योज्याशीसुद्धा सेपकं साथ शकतीलः श्रीमती पल्लवी नाते, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एसएसडीएल, ४वा मजलत, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाङण्ड, सेनायती वाणर मार्ग, लोजस रस्क, मुंबई-४०० ०२३, टोल-फ्री ने, १८०० १०२० १९०/ १८०० २२४ ४३०, ईन्मेल : <u>evoting.nadi.co.in</u>

दि न्यू इंडिया एड्यॉरन्स कंपनी लिमिटेडकरिता कंपनी सचिव व मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थळ : मुंबई तारीख : १५ डिसेंबर, २०२२

सागरी किनारी मार्ग

पुलाच्या खांबांमधील अंतर १२० मीटरवर

मंबई : मुंबईतील सागरी किनारी मार्गाचे (कोस्टल रोड) काम भुवदताल सागरा कनारा मानाच (कान्टल राड) कान वरळो कोळीवाड्याजवळील पुलाच्या दोन खांत्रामधील अंतर ६० वरून १२० मीटर टेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिटे यांनी गुरुवारी जाहीर

मुख्यमंत्री एकनाथं शिदे यांना गृहवारी जाहीर केला. वा भागातील कोळीबांधवांच्या मागणीनुसार हा निर्णय प्रेण्यात आला असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, मनुष्यवळाची संख्या बाढवून सागरी किनारी माग प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा, असे निर्देशहो मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिले. वर्षा निवासस्थानी मन्त्रमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली

नारवार पुरस्पानी से व्यावन विभागता दिव. वर्षा । नावारस्थानी मुख्यमंत्री से वर्षा आप्ता अप्रभावस्थानी मुख्यमंत्री से वर्षा आप्ता प्रमावस्थानी मुख्यमंत्री से वर्षा आप्ता अप्रभावस्थानी होत्र स्वरूप वर्षा । त्रावे क्षारं वर्षा वर्षा अप्ता अप्ता अप्ता क्षारं के समस्य प्रमावस्थानी में प्रमावस्थानी से क्षारं के समस्य प्रमावस्थानी में प्रमावस्थानी में

विजेच्या धक्क्याने चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू

पुणे : भीर वाल्क्यातील निगडे गावान नदीपात्रात विद्वान पंपाची माटार सोडत असताना विजय्या धरुस्याने चार रोतकर्नाचा मृत्यू आल्याची घटना गुरुवारी पडली, यात वडील आणि मुलाचा मृत्यू आल्याची घटना हालारी आवानति आव्यानीत पानि मावार गोककर्म्य पाण्यान उत्तरस्थाने पोणाचा मृत्यू आव्याने अध्यान आवानति अध्यान प्रत्यान पोणाचा मृत्यू आल्यानो आर्थान प्रीठन वी ग्राप्यान उत्तरस्थाने पोणाचा मृत्यू आल्यानो आर्थानी प्राप्यान वात्रस्थाने पोणाचा मृत्यू आल्यानो आर्थानी प्राप्यान वात्रस्थानी पाणाचा मृत्यू आर्थाना प्राप्यान प्रत्यानी प्रत्यानी पाणाचा मावारी (१४), अमावा व्यक्तान वात्रस्थानी स्थानी मावारी माराप्यान वात्रस्थानी प्राप्यान माराप्यान प्राप्यान क्ष्यान्य अप्यान क्ष्यान्य अप्यान क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य अप्यान क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य क्ष्यान क्ष्यान्य व्यव्यान क्ष्यान्य क्ष्

शहरी नक्षलवाद : फरारी आरोपींविरोधात वॉरंट

मुंबई : शहरी नश्चलवादाच्या आरोपाप्रकरणो फगरी असलेल्या दोन आरोपीविदोधात विशेष न्यायालयाने गुरुवारी अजामीनपाप्र अटक बॉरंट काढले.

रितपन गोस्वामी आणि मुपल्ला

लक्ष्मण राव उर्फ गणपती यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉस्ट काढण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआवए) विशेष न्यायालयात आजं केला होता. एनआयएची हो मागणी मान्य करण्यात





प्रतिकारशक्तीकरिता



जनसता

वापमान

सर्वोदय- 07:07

16 दिसंबर, 2022

दो विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को मंजूरी

जानकारी दी। दिल्ली पुलिस द्वारा 12 नवंबर को आफताब अमीन पूनावाला की गिरफ्तार करने के बाद पिछले महीने बालकर की हत्या के बारे में सामने आई जानकारी ने पूरे देश को इक्कोर दिया था। पुलिस ने नवाता था कि पूछताछ के दौरान, पूनावाला ने बालकर की हत्या करने

जनस्ता संवादवाता जनस्ता संवादवाता जनस्ता संवादवाता जनस्ता संवादवाता जनस्ता संवादवाता जनस्ता है दिल्ली, 15 दिसंवर ।

उपराज्यपाल की के सक्संता ने अद्धा वालकर हत्याकांड में दी विगोध लोक अभियोवकों को नियुक्त संवाधीनी से स्वाध 659 दिनांक 10 नवंबर, 2022 आइपीली की धारा 365/302/201 के तहर महरीली संवधी हिल्ली पुलिस के अभिव्यारों ने गुक्ता को वह अध्यापति है से ते । रावनित्यात के अभिव्यारों ने गुक्ता को वह अध्यापति है से ते । रावनित्यात के अभिव्यारों ने गुक्ता को वह अध्यापति है स्वाधित स्वाधित के अधिकारों ने गुक्ता को के अध्यापति के अधिकारों के प्रभाव को जो नियुक्त के लिए दिल्ली पुलिस होरा 12 नवंबर को आक्ताव अभिव्यारों में के प्रसाव को महर्ग दे वह है । इन्होंने वताया, मामला अद्धा हत्याकांड से गुड़ा है। अध्यवकांओं मामक्रव पांडे और अभित प्रसाद मामले में विशेष लोक अभियोगकों के क्षापति स्वाधित प्रसाद मामले में विशेष लोक अभियोगक के रूप में दिल्ली पुलिस का पुछताछ के दौरान, पुनावाला ने वालकर की हत्या करने के प्राप्त को अभियोगक के रूप में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधन्य करेंर।

छह जनवरी को निगम की पहली बैठक

जनसता संवाददाता नई दिल्ली, 15 दिसंबर ।

न्यानियांका दिल्ली नगर निगम (एमसाँडी) की पहली बैठक नए वर्ष में छह जनवरी को होगी। इस बैठक में हो दिल्ली के सार्थार और उप प्रसार्थ को पहली बैठक में है दिल्ली के सार्थार और उप प्रसार्थ को एक जनवरी को उपानियांका को एक जनवरी में है है जा बेठ उपानियांका को एक जनवरी है। इस बावत उपानियांका की के प्रस्ते को एक मिला में प्रसार्थ की एक के प्रसार की प्रसार्थ को एक कि सार्थ किया है। इस बावत उपानियांका की बैठक के लिए सर्वारांचा को गांग था। जात हो कि सात्र दिस्स को एक के लिए मर्वारांचा को गांग था। जात है कि सात्र दिस्स को एक के लिए मर्वारांचा के प्रसार्थ की के मिता के बित का तर की है। जिगम के 250 गांडी में से 134 में जीत इस कराई है। जिगम के बीठी 15 प्रसार से भारतीय जनता पार्टी (आपण) का ककवा था। उपान्यांचा कर लोग के सूत्रों के मुताबिक ने

का कथा था। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक ने उपराज्यपाल वो के सक्सना ने दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम-1957 में दिए गए अधिकारों

वैतक में चने जाएंगे महापौर और उप महापौर। *उपराज्यपाल* ने सत्र के लिए मंजूरी दी, आयक्त ने भेजा था मसविदा।

का इस्तेमाल करते हुए नवर्गियाधिय निगम की पहली बैठक कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे री है। इस बैठक में ही दिल्लों के महार्पोर और उप महार्पेर का चुनाव होगा महार्पोर के नामांकन के विश् प्रक्रिया हिरावर के आदियों समाहर में होने चुरू होने को संभावना है। होएससी आजितमा 1957 के तहत हुए सहन में नव निर्वाधित पार्थद, लोकत्सभा और राज्यसभा के दिल्ली के सदस्य, दिल्ली विज्ञानसभा सदस्य का पार्थवा हिराव (115) सदस्य और प्रशासक द्वारा नैनात किए गए दस्य सदस्य शासित होंगा हो स्वाचीर व उप महार्पोर पर के हिन्ह अपने महार्पोर्थक हा प्रमाण करेंगा होत्सावि आदेशों में नह भी स्वष्ट किया गया है कि प्रशासक द्वारा

का अधिकार नहीं होगा। इस बाबत निगमायुक्त ने उपराज्यपाल से मंजूरी का

अनुरोध किया था और पहली बैठक बुलाने का प्रस्ताव 12 दिसंबर को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग 12 हिस्सय को दिल्ली उस्तरक के नाहरी विकास विभाग के पास भी जा प्रममुख्यारी व्यक्त करी विकास में जी प्रममुख्यारी व्यक्त हों विकास में जी प्रममुख्यारी व्यक्त हों जी करानी विकास कर नाम कि प्रमान के प्रमान कि प्रमान के प्रमान कि प्रमान के प्रमान के प्रमान कि प्रमान के प जाएगा ।

प्रदुषण : सरकार के कामकाज से उपराज्यपाल खुश नहीं

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

प्रदूषण को लेकर उरगज्याल व दिल्ली सरकार के चीन काकरार खुनकर सामने आई है। उरगज्याल की अरमाना में प्रदूषण निराण उपायों पर एक आदेश जोरी करने में दिल्ली राजार की सामने में प्रदूषण सरकार को आर से किरत होंगे पर अपने नाखुशी ज्यान की और निरंग दिया कि इसे मुख्यमंत्री अर्थार के करनेवाल को बताय लाए। उरगज्याल कार्यालय के एजी ने कार्य कि प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यालय के अरमें कर को निर्माण निराण जाना चाहिए या, तीकिन अर्थों तक जारी नहीं किया जाना चाहिए या, तीकिन अरमें तक जारी नहीं कार्यालय के अरमें कर कारी कर वापराव्याल कार्यालय के सुर्व में पराव्यालय के सुर्व क प्रदुषण को लेकर उपराज्यपाल व दिल्लं

सिंधन ने उच्चतम नापालल के नवंदर 2019 के अदेश और पांच आगत्त 2022 के वातु गुवचशा अवरंग आगत (तींप्रस्पृप्त) के प्रक आरोप के अनुपातन में 22 अनुपात को गीपाल गय को मंजूरी के लिए अतिहर में जी थी।

17 नवंदर को गीत को टिप्पणी के आफल मुख्य सिंधन को पार्च को मंजूरी के लिए अतिहर को जीव दिप्पाणी के आफल मुख्य सिंधन को नापस कर वो गई थी।

बार में, मुख्य सर्विच ने उपरान्यपाल को फाइल अंत्री और रहें मंजूरी दे ही अर्ग मान्य ने दे अस्मामन ने दिल्ली सरकार को 'चीर लापराक्षी' पर 'पिराजा और नवंदरी' ने तहें हुए अराज्यपाल ने इस मामन ने दिल्ली सरकार को 'चीर लापराक्षी' पर 'पिराजा और नवंदरी' ने तहें हुए अराज्यपाल ने इस मामन ने दिल्ली सरकार को 'चीर लापराक्षी' पर 'पिराजा और नवंदरी' ने तहें हुए अराज्यपाल ने इस मामन ने दिल्ली सरकार को 'चीर लापराक्षी' पर 'पिराजा और नवंदरी' 'अता कि कर कि इस मामन ने दिल्ली सरकार को 'चीर लापराक्षी' पर 'जीवें के अराज्य सिंधन के स्वत्य के अराज्य सिंधन आता की अराज्य सिंधन आता की स्वत्य स्वत्य सिंधन आता की सिंधनार के उपनेन अपविद्य और पूर्व निवंदर के स्वत्य सिंधन आता अराज्य स्वाप्त स्वत्य स्वत्य के स्वत्य सिंधन अराज्य सिंधन अराज्य आता सिंधनार के स्वत्य सिंधन अराज्य आता सिंधनार के सिंधन करने को नेकर स्वत्य सिंध आधिकारियों को विस्तावरी तब करें।

आइजीआइ हवाईअड्डे पर सीआइएसएफ के 1.400 अतिरिक्त कर्मी होंगे तैनात

नइं दिल्ली, १५ दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाईअड्डे के बढ़ते टर्मिनल क्षेत्रों की सुरक्षा और यात्रियों की भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए एअरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा . बल (सीआइएसएफ) के 1,400 अतिरिक्त कर्मी तैनात करने की मंजुरी दे अतिरिक्त कमी नैनात करने की मंजूरी है दी गई हैं। अधिकारियों न गुरुवार को का जानकारी हैं। केंद्रीय गुरुवार को को नागकिय हैं। केंद्रीय गुरुवार को को नागरिक रङ्करूप नंप्रमाल्य नागकि के नागरिक रङ्करूप नंप्रमाल्य नागकि रङ्करूप न्सुरक्षा च्यूरों (बीसीएएम), आञ्चाज च्यूरों व अंग्या तिमाशपक्य की एक बैठक हुं। यह बैठक विशेष कप से एक बैठक हुं। यह बैठक के दौरान व व्याप चुलाई गई थी। बैठक के दौरान बनाया गया कि सीआइएसएफ के 1,400 अतिरिक्त जवान जवल हो इंदिरा गांधी अतरियंद्र जवान जवल हो इंदिरा गांधी अतरियंद्रीय बवाई अड्डे पर तैनात किए

स्ति केमा हांग तनात जाएंग, जहां तीन टर्मिनलों -1, 2 और 3 - और कांगी भेज का विस्ताद किया जो हां हैं टर्मिनलां -1 का नवीनिकरण और विस्ताद अगलें साल दिस्तवर या जनवरीं 2024 नक पूरा होंगे ज्याला था, लोकिन सरकार जाहती हैं कि इसे तंजी से पूरा करते हुए नवंबर 2023 में ज्याल अर दिया जाए। औरिकारियों ने कहा कि अप्रत्यों के लिए औरियत रीआप्रम्यस्थ्य अप्रत्यों के लिए औरियत रीआप्रम्यस्थ्य कर्मियां जो आयर्थकात होंगी और इस्तिल्य यह केस्ताल दिया गया है। नागर विसानन मंत्रालय ने बुभवार को कहा था करान के लिए उठएए गए जहारी करती के चार अब याचियां को बीहिया के लिए जांच चीकियों और प्रशेश हारों पर लाने वालं समय में कभी आई हैं। वहीं, वालं चुभवार को कहा था कि प्रमुख इसाई अर्थें ए परिक्रमाई के निए समानन मंत्री अवीतिग्रादिख विस्था ने चुभवार को कहा था कि प्रमुख इसाई अर्थें ए परिक्रमाई का करने के लिए सभी एसिस्यां पिछले 24-36 घंटो से पूर्वत्व हैं।

'पीड़िता अभी भी आइसीयू में'

नडं दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा)।

नह दिल्ली, 15 दिस्तर (भाषा)।
दिल्ली में तंजाब हमले की
शिकार हुई छात्रा अभी भी
सफरतंजा। अस्पताल के 'धर्ने
शाइतीयु' में मर्नी है और होंचा में
हैं। डाक्टरों ने गुरुजार की यहा
जानकारी दी। पश्चिम दिल्ली के
दक्तम नगर में बुध्यार सुबब्ध स्कूल जाने के लिए घर से निकली छात्रा पर मीटरसाइकिल सखार दें नजावपीश लोगों ने कशित तौर पर तंजाब फेक दिया था, जिसके वा अस्पताल में भारी कराया गया था

सीबीएसई की फर्जी माइट बनाई भेज रहे लावों को प्रवेश पव सावाएसड को फजी साइट बनाई, भज रहे छात्रों को प्रयोग पत्र के सरेखा कैत्रेय मार्थ्यकि शिक्ष औहं (सोवाएसड) की फीनो देवसाइट बनाने का मामला सामने आया है। इस साइट के माध्यम से कक्षा दस और बारह के छात्रों के अभिभावकों को प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड 2023) डाइन लीड करने के सरेखा मेंग्रे गा रहे हैं। देर रात राजीवाएसडे ने क्यान जाति कर यह जानकारी दी। सीवाएसडे ने आम जनता से एसे शारारती तत्वीं से सावधान इस्त्रे की अपील की है और ऐसे किसी भी एसएमएस के संबंध में कोई जवाब नहीं देने की सत्वाह दी है। (जसं)



चित्रका कारण करिये करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिया करिया करिया करिया करिया है।

चित्रका करिया करिय

প্ৰকাৰ জগত 'কাৰ আনিবাৰ' কৰা গৰা হী জ আনা আম কৰিব। কৰিব। কিছেল গৈলাবাৰী তেওঁ জ নিবাৰ জ নী ৰাম কৰিব। আমা কৰিব। কৰি

सार अमेरिक वार्षा मुक्का में जिसका के हैं, एकदारा कार्यामा अपन्य कार्यामा का राज्याचार स्थान है। के जानि तासको दारा प्रमुख के द्वारा के कार्यामा कार्याम का

दिल्ली पुलिस Delhi Police &

Wise Words

Land Pooling का चक्कर है धोखे का जजाल, बिन सोचे पैसे डाले तो होगा जीवन में बवाल

W/CT Sunita ऑनलाइन और ऑफलाइन घोखेबाजों से सावधान रहें

कृपया ध्यान रखें

साडबर/वित्तीय धोखायडी की शिकायत के लिए 1930 पर कॉल करें 🧨 cybercrime.gov.in

एम्स चिकित्सा

अधीक्षक का

तबादला नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

एम्स के चिकित्स एम्स के चिक्तारा अधीक्षक डा डीके शर्मा को उनके पद से हटा कर उन्हें एम्स के ही नेत्र चिकित्सालय आरपी सेंटर के अधीक्षक के पद पर स्थानांतरित कर दिया

अब एम्स मुख्य परिसर के चिकित्सा अधीक्षक का क विकासी अधिक का काम काज एम्स ट्रोमा सेंटर के मुखिया का कामकाज देख रहे फारेंसिक विभाग के प्रोफेसर डा संजीव देख रह फारीसक विभाग के प्रोफेसर हा संजीव लालवानी देखेंगे। एम्स की प्रबंध सिमिति की बैठक में हुए इस फैसले को आज से अगलेआादेश तक के लिए लागू किया गया है।

निगम कर्मचारियों के वेतन से काटे जाएंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के पैसे

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव के परिणाम आने और ताजा मामले में छह जनवरी को निगम के गठन से पहले तानी मांसल में 98 जनका निराम के गठन से पहले को निराम के गठन से पहले की निराम ऑककारी निरंध करायन में जोई करप नहीं छोड़ रहे। कर्मचारी अभी वतन के लिए चार महीने से इंतजार में हैं और उपर आयुक्त के निरंध पर येतन में कर्दीनी के आरोश में उतन कर निरंध पर येतन में कर्दीनी के आरोश में वतन कि निरंध पर येतन में कर्दीनी के आरोश में वतन में कर्दीनी से पर येतन में कर्दीनी से उत्तर सम्बर्ध स्वतन में तेत के मिराम कर्दीनी पर विचार करें। युक्ता स्वतन में के लिए महान स्वतन में स्वतन में के निराम मुख्यानण के एक आरोश के याद कर्मचारियों में रोध के निराम मुख्यानण के एक आरोश के वाद कर्मचारियों में से पर वेतन निरंध स्वता में समस्य पर वेतन न

निगम में समय पर वेतन ना मिलने के कारण पहले से ही दुखी कर्मचारी अब वेतन में कटौतों के आदेश से परेशान हो रहे हैं।



द न्यू इण्डिया अञ्योरंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई

पेजीकृत कार्यालय व मुख्यालयः 87, एम.जी. वेड. फोर्ट, मृत्यूं — 4 CIN NO: 1660004611919000000526 , आईआवीद्ध पेजीकरण दुरुवाचः +91 22 22708263 ; फैक्स : +91 22 2655811 त : investors@nerwindia.co.in : वेबसाइट : www.newind

डाक मतदान की सूचना

ग्रहानों को सहत्यों का मुख्य किया जात है कि कंपनी अधिनिया 2013 के कत्सम 108 वा10 के अनुसार, इसे कंपनी (प्रभाग और आसासन) नियम 2014, वासीय प्रतिभूकी एवं विनियम बोर्ड के नियम 44 के अनुसार (यूची दासिया व प्रकटीकल्ट आवश्यकतार) नियम, 2015 के अनुसार और अन्य तालू अधिनियमों, नियम व विनियम, परिता और अन्य तालू अधिनियमों, नियम व विनियम, परिता और अनुसार की अधुसार की अनुसार कियों है। उसे विनियम की अधुसार की किया माने के अधिन की विनियम की विनियम की विनियम की अधिन के किया किया के किया माने की अधिन की अधिन के अधिन के अधिन के किया किया की अधिन के अधुन के अधिन के अधुन के अधिन अधिन के अधिन क

क्षक मतदान नीरिस को मेजने की प्रक्रिया पूर्व कर जो गई है, जिससे क्षक मतदान का फॉर्म माने उन सदस्यों को भेजा है जिनका नाम भारतप जीकरर में जाविक है जो वित्तावीर स्वामों के जब में छ दिसंबर, २०२२ तक के जो कि मीतिक स्वाम में मतदान में जा जोरी, सबते हों पत्र का का पूर्व में मूलन किया कुंडा अपने पत्र तिस्वा प्रयासिक प्रतिस्वा तिस्वामों आ प्रतिस्व हों जाति तिस्वामों आ नीरीस हों जाति तिस्वामों आ नीरीस हों जाति तिस्वामों आ नीरीस हो जीति हों जो स्वाम में स्वाम मतदान की स्थोज़ित भा सके।

वे सहस्य को कंपनी में इनके मिलना मालते हैं। जो ए के लोगानी (खेआएंपर : 009778220), दिलोक 31 अक्टूबर 2022 में उत्तरस्य मैनिजर और अपरेक्टर के रूप में पारत सरकार द्वारा तथ तक निकुत्त हैं, जब तक से पेतनभाषी को आयु तक नहीं पहुंच जाते (अपवीर 31.01.2023), और इसके रिए ऑफ्ट्रियन में अ—110110322022 — Ins I. दिलोक 31 अक्टूबर, 2022 और संस्था के अनतिमानी के अनतार अनतिमान 121 के अनुस्थ के को सुमित हो 12, से बाब के कीमारे (खेआएंपर : 03972315), दिलोक 10 नवंबर 2022 में कंपनी के जनतर मैनित और उत्परेक्टर के रूप में अन्य सम्बन्ध द्वारा का कर निकुत्त हैं कर तक ये पेत्रमानी भी आयु तक नहीं तहुंच जाते (अपवीर 31.03.2023), और उत्पर्ध होते हैं। 1101103/2022 —Ins I. दिलोक 31 अक्टूबर, 2022 और यह संस्था के अन्तनियमी के अन्यर्थत अनतिम्य 121 के अनुस्य है जो सुचित हो।

सहरायों है निवंदन है कि ये यह जेट कर कि घतरान, हतेन्द्रातिक माध्यम से सोमग्रार १९ हिसंबर, २०२१ (मुबह ७०० भारतीय समग्रानुसर) पर तृत्र सोकर मोमग्रायर १७ जनमरी, २०२३ (अमाक्षत ५०० भारतीय समयानुसर) योक लोगा । सहस्य किसी भी एक मतग्रान प्रकार को पुन सकते हैं, भीतिक असे समग्रा पर हानेन्द्रातिक प्रकार गति कोई हत्वर भीतिक व इतेन्द्रातिक प्रकार दोनों से से मतग्रान करता है, तब इतेन्द्रातिक प्रकार से किए गए मतदान को वैध और मीतिक प्रकार से मतदान को अधिव मात्र जाएगा।

कंपने के निदेशक बीर्ड प्राप्त थे. एस. एन. शिक्यनाथन और उनके उपलब्ध न जीने पर पूर्व मानती कृपर, एस एन अनंत्युसम्प्याप एन्ड कंपनी प्राप्तीयर को डाक मानदान श्रोनस्ट्रीनिक मनदान को ससी व पास्तर्थक प्रकार से तीयत करने हुत संवीक्षक के एस में नियुक्त किया है। सदस्यों से नियं कि के विकास के प्राप्त मानदास एक नानवरी, २०२३ (17:00 घन्टे पारा सम्मानुस्तान) तक सुद्ध आर्थ प्राप्ता के पास मानदास एक नानवरी, २०२३ (17:00 घन्टे पारा सम्मानुस्तान) तक सुद्ध आर्थ प्राप्ता के पास प्राप्ता के पास मानदास एक कार्यों प्राप्त के पास प्राप्त के पास प्रमुक्त ने पास प्रमुक्त ने प्रमुख आर्थ आर्थ प्रमुख के पास सम्मानुस्ता ने तक कार्या प्रमुख के पास सम्मानुस्ता ने तक कार्यों प्रमुख के पास सम्मानुस्ता ने तक कार्यों के पास प्रमुख के पास सम्मानुस्ता ने तक कार्यों के पास स्वाप्त प्रमुख के पास सम्मानुस्ता ने तक कार्य आर्थ स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत स्व

नदस्यों के मतदान अधिकार दिनकंक ९ दिसंबर, २०२२ तक अवाधिन तहने चाहिए तो कि अंतिम तिथी है। तो त्यांकित अंतिम तिथी तक सदस्य नही है. उसे इक्क मतदान की सुचना को केवल जानकारी के प्रकेशन से लेना चाहिए। इक्क मतदान सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट at nwws.newindia.co.in.पर भी उपलब्ध है।

ट्रॉनिक मध्यम से मतदान संबंधी कोई भी प्रस्न होने पर कृपया ई मतदान संबंधी अनुच्छेद के निर्देशों को देखें जो कि शक मतदान पर्यों से संबंधित त्वरूप में हमारी वेबसाइट www.newindia.co.in या www.evoting.nndl.com पर उपलब्ध है।

वहिं आपका इंमेल आईटीफाले में कंपनी लंग्रसामार में पंजीकृत है, तब इं मतदान में संबंधित लागिन का विवरण आपके पंजीकृत इंमेल पर भेज गया है। वे सदस्य जिल्लीने आपने इंमेल पते आपी तक पंजीकृत नहीं करवाद है, उन्हें निवंदन है कि वे उन्हें अपने डी यो के आप पंजीकृत करवाद यहि उनके अंत्र हलेक्द्रनिक प्रकार से मुत्रवित हैं और वदि चीतिक स्वस्थ में हैं, तब कृपया मेसले लिंक इन्तद्रस्म (इन्डिया) प्र. हिं. पर पंजीकृत करवाद ।

ई मलधन में संबंधित किसी मी प्रान्त शिकारात की स्थित में, जदस्तों से नियंदन है कि ये संघल करें, श्री महेता समूख्कर, नियंत्रक संबंध, शिक इनट्या तिन्त्रता प्रा. ति: श्री—101, 247 पार्क, एलबॉस्ट्स मार्ग, विकोत्तों (प) मुंबई इ.400 083 ,ट्रायांच -91 22 49186270 , ऐसेल आईबी nat.hebpdesk@linkintinse.co.in गदस्य एनें भी संघल कर सकते हैं, युक्त पालसे करते, संवित्तर मैनेवर, एनएससेएल, जीवो मिलल, तिए, हैंद करते, कमला मिल्स कम्पाउन्ह, सेनापति वापर मार्ग, लोक्स पसल, मुंबई 400 013 , टोल फी नें: 1800 1020 990 /1800 224 430, ईमें आईबी : क्षणवीक्त क्षित्रकार्की राजात

वा अञ्चोरस कंपनी लिमिटेड के लिए दिनांक व हम्साक्षर जवश्री नावर खाकार व विक्रि अनुपालन अधिकारी

स्वानः मुंबई दिनाकः 15 दिसंबर, २०२२